



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2013/कार्तिक 29, 1935

No.303]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2013/KARTIKA 29, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 12 नवम्बर, 2013

सं. टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा चेन्नै पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को इसके साथ संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी

गणपूर्ति

(i) श्री टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चंद्र भान सिंह, सदस्य (अर्थ)

आदेश

(अक्टूबर 2013 के 29वें दिन पारित)

यह प्रकरण, चेन्नै पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. सीएचपीटी का प्रचलित दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/45/2008 सीएचपीटी दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था जिसे भारत का राजपत्र में 11 जनवरी, 2011 को अधिसूचित किया गया था वह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक प्रदान करता है। बाद में, प्रचलित दरमान की वैधता 14 जून, 2013 के आदेश के माध्यम से 30 सितम्बर, 2013 तक विस्तारित की गई थी।

3. सीएचपीटी द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 और 29 मई, 2013 के अपने पत्र के माध्यम से दाखिल किया गया प्रस्ताव प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया है और संबद्ध उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता एसोसिएशनों के साथ परामर्श के लिए लिया गया है। दिनांक 24 सितंबर, 2013 के हमारे पत्र द्वारा (सीएचपीटी से) अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया था इस प्राधिकरण में संयुक्त सुनवाई 27 सितंबर, 2013 को रखी गई थी। जैसकि संयुक्त सुनवाई में सहमति दी गई थी सीएचपीटी से अनुरोध किया गया था कि वह संयुक्त सुनवाई में लिये गए निर्णयों पर कार्रवाई आरंभ करे और दिनांक 24 सितंबर 2013 के हमारे पत्र के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी प्रस्तुत करे। सीएचपीटी के उत्तर की प्रतीक्षा हो रही है। जब सीएचपीटी का उत्तर प्राप्त होगा तक उसकी जांच परख में भी कुछ समय लगेगा। इसको देखते हुए इस प्राधिकरण के विचारार्थ इस प्रकरण को परिपक्व होने में कुछ समय तो अवश्य लगेगा।

4. प्रचलित दरमान की विस्तारित वैधता 30 सितंबर, 2013 को समाप्त हो गई है यह मानते हुए कि सीएचपीटी का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है और सीएचपीटी के उत्तर की जांच परख में प्राधिकरण के विचारार्थ इस प्रकरण को परिपक्व होने में लगने वाले समय को स्वीकार करते हुए यह प्राधिकरण प्रचलित दरमान की वैधता 31 दिसंबर, 2013 तक अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

5. इसकी निष्पादनता की समीक्षा के दौरान 1 अप्रैल, 2013 के बाद वाली अवधि के लिये स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो ऐसे अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में पूरा-पूरा समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/143/13]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2013

No. TAMP/45/2008-CHPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at the Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/45/2008-CHPT

QUORUM

- (i) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of October, 2013)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale or Rates (SOR) of Chennai Port Trust(CHPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the CHPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/45/2008-CHPT dated 10 November 2010 which is notified in the Gazette of India on 11 January, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. Subsequently, the validity of the existing SOR was extended by this Authority till 30 September, 2013 vide its Order dated 14 June, 2013.

3. The proposal filed by the CHPT vide its letter dated 19 February, 2013 and 29 May, 2013 is registered as tariff case and taken on consultation with the concerned users/user association. Additional information/clarification was sought vide our letter dated 24 September, 2013. Joint hearing on the case was held on 27 September, 2013. As agreed at the joint hearing, the CHPT was requested to initiate action on the points decided at the joint hearing and also furnish its response to our queries raised vide our letter dated 24 September, 2013. The response of the CHPT is awaited. Time will be required for examination of the response of the CHPT when received. In view of that it will take some time for the case mature for consideration of this Authority.

4. The extended validity of the existing SOR expired on 30 September, 2013. Considering that the response of the CHPT is not received and recognizing the time required to examine the response of the CHPT and for this case to mature for consideration, this Authority extends the validity of the existing SOR till 31 December, 2013 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus Will be set off fully In the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Ext/143/13]